

तुरंत रिलीज के लिए

ल्यूमिनाटो ब्रैम्पटन में आ रहा है!

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (21 अप्रैल, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ल्यूमिनाटो फेस्टिवल टोरोंटो (Luminato Festival Toronto), 10 और 11 जून को ब्रैम्पटन में हो रहा है। पहली बार, कला और विचारों का अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल, ल्यूमिनाटो (Luminato), टोरोंटो के बाहर होगा और ब्रैम्पटन में दो खास इंस्टॉलेशन होंगी।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की, [आर्ट्स, कल्चर एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री डिवेलपमेंट एजेंसी \(Arts, Culture and Creative Industry Development Agency\)](#) (ए.सी.सी.आई.डी.ए.) और [टूरिज्म ब्रैम्पटन \(Tourism Brampton\)](#) को, शहर में ल्यूमिनाटो फेस्टिवल लाने पर गर्व है, जो निवासियों और आगंतुकों (विजीटर्स) को न केवल इस प्रीमियर आर्ट्स कार्यक्रम का, बल्कि ब्रैम्पटन की विविध कला संबंधी और सांस्कृतिक गतिविधियों और खास कार्यक्रमों को तथा और बहुत कुछ अनुभव करने का अवसर देगा।

आर्ट इन ट्रांज़िट

शुक्रवार, 10 जून

- माउंट प्लेज़ेंट गो स्टेशन (Mount Pleasant GO Station)
- ब्रैम्पटन गो स्टेशन (Brampton GO Station)
- ब्रैमली गो स्टेशन (Bramalea GO Station)

आर्ट इन ट्रांज़िट (Art in Transit), स्ट्रीट थिएटर की खुशी और आनंद के साथ-साथ, आपकी रोज़ाना की यात्रा में होने वाली कलात्मक गतिविधियों में रोमांच लाता है। ब्रैम्पटन में चुनिंदा स्टेशनों में पॉप अप होते हुए, यह सुबह की यात्रा का बेजोड़ अनुभव होगा, जिसे आप बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहेंगे।

ऑल इन गुड टाइम

शनिवार, 11 जून

लोफर्स लेक रेक्रिएशन सेंटर (Loafer's Lake Recreation Centre)

पिछले दो वर्षों से, ज़िंदगी बिना किसी समारोह के या बहुत ही कम समारोहों के साथ गुजर रही है क्योंकि कोविड-19 (COVID-19) महामारी ने, इकट्ठे होने, जशन मनाने की हमारी क्षमता और समय गुजारने की प्रक्रिया को रोक दिया है।

ऑल इन गुड टाइम (All in Good Time), आपको प्यार, आभार और मुक्ति के मार्गनिर्देशित समारोह में आमंत्रित करता है। हर योग्यता

वाले व्यक्तियों और समूहों के लिए तैयार किया गया यह शक्ति देने वाला एक्टिवेशन, हमें दुबारा जोड़ने, हमारे दिलों को एकसुर करने और शरीर, जमीन, पानी और अन्य चीजों के बीच के संबंध के अंदर महसूस होने वाली शारीरिक तालों को जगाने के लिए, ऑडियो और विजुअल प्रॉप्ट्स का प्रयोग करता है।

ल्यूमिनाटो फेस्टिवल टोरोंटो के बारे में

ल्यूमिनाटो फेस्टिवल टोरोंटो, बड़ी, स्पष्ट समाकालीन आकृतियों के लिए, कन्वीनर और कैटालिस्ट है। हर वर्ष जून में, ल्यूमिनाटो, असाधारण कैनेडियन और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की प्रस्तुति देते हुए, उन्हें पेश करते हुए, उन्हें अधिकार देते हुए, टोरोंटो में दुनिया का स्वागत करने के लिए इस फेस्टिवल के साथ गर्मी की शुरुआत करता है।

पूरे वर्ष के दौरान ल्यूमिनाटो, रचनात्मक विकास की हिमायत करते हुए और कला को दुनिया के मंच पर लाते हुए, शहर और रीजन की विविध संस्कृतियों तथा कम्युनिटीज के कलाकारों के साथ मिलकर काम करता है। वे लोकल आवाज़ को ग्लोबल बातचीत के साथ जोड़ते हैं और समानता, समावेश, सुलभता और स्थिरता में अपने काम को आधार बनाते हैं। सबसे खास बात है कि ल्यूमिनाटो, बातचीत शुरू करने और दर्शकों को प्रेरित करने के लिए कला की ताकत पर यकीन करता है।

इस वर्ष के फेस्टिवल के बारे में अधिक जानने के लिए, luminatofestival.com पर जाएं।

हवाले

“हम पहली बार ब्रैम्पटन में ल्यूमिनाटो का स्वागत करने के लिए बेहद उत्साहित हैं! इन दो खास कार्यक्रमों के जादू और अजूबे का आनंद लेने के लिए, 10 और 11 जून की तारीख याद रखें।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“यह, ब्रैम्पटन के लिए बहुत ही रोमांचक अवसर है! हम हमारे शहर में ल्यूमिनाटो का स्वागत करने और निवासियों तथा आगंतुकों को, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रसिद्ध इस कार्यक्रम का अनुभव लेने का अवसर देने के लिए बेहद उत्साहित हैं।”

- हरकीरत सिंह (Harkirat Singh), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10, चेयर, कापॉरिट सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“यहां ब्रैम्पटन में ल्यूमिनाटो का अवसर, हमारी कम्युनिटी को हमारे खुद के बैकयार्ड में ही इस सर्वोत्तम कार्यक्रम के मज़ेदार अनुभव का अवसर देगा। मैं इसमें शामिल होने के लिए बेहद उत्साहित हूँ।”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; वाइस-चेयर, कापॉरिट सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन; काउंसिल एडवाइजरी पैनल मेम्बर, आर्ट्स, कल्चर एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री डिवेलपमेंट एजेंसी

“इस वर्ष के कार्यक्रम में ब्रैम्पटन को शामिल करने और हमारी कम्युनिटी में यह अनुभव लाने के लिए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में हमारी टीम के साथ काम करने हेतु, ल्यूमिनाटो का धन्यवाद।”

- *पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“ल्यूमिनाटो, बेहद आवश्यक खुशी और प्रेरणा को दुबारा जगाने के लिए हाजिर है, जो हमें पिछले कुछ वर्षों से नहीं मिली है। हम इस वर्ष ल्यूमिनाटो के कुछ कार्यक्रमों को ब्रैम्पटन में लाने के लिए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के साथ साझेदारी करने पर बेहद उत्साहित हैं। ल्यूमिनाटो 2022, पूरे रीजन के दर्शकों के लिए, साझी की जाने वाली कहानियों और अनुभवों के द्वारा हमसे जुड़ने के लिए, कला की ताकत का उत्साहपूर्ण रिमाइंडर होगा।”

- *सेलिया स्मिथ (Celia Smith), सी.ई.ओ., ल्यूमिनाटो फेस्टिवल टोरोंटो*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](#) पर और जानें।

ल्यूमिनाटो फेस्टिवल टोरोंटो 2022 के हिमायती

फाउंडिंग सरकारी पार्टनर प्रोविंस ऑफ ओनटैरियो (Province of Ontario)

प्रमुख पार्टनर कैनेडा सरकार (Government of Canada), सिटी ऑफ टोरोंटो (City of Toronto)

कार्पोरेट पार्टनर कैडिलैक फेयरव्यू (Cadillac Fairview), मेटा (Meta), बी.एम.ओ. (BMO), टी.डी. बैंक ग्रुप (TD Bank Group), लोबलॉ कंपनीज लिमिटेड (Loblaw Companies Limited), ओ.एल.जी. (OLG), हैच (Hatch), ब्लूमबर्ग (Bloomberg), पावर कार्पोरेशन ऑफ कैनेडा (Power Corporation of Canada), किंगसेट कैपिटल (Kingsett Capital), ऑक्सफोर्ड प्रॉपर्टीज (Oxford Properties) आदि

व्यक्तिगत डोनर और फाउंडेशन्स एनोनिमस (Anonymous), इयान एंड कीकी डीलैनी (Ian and Kiki Delaney), सी.एम., द डियाने एंड इर्विंग किपनेस फाउंडेशन्स (The Dianne and Irving Kipnes Foundation), जॉन एंड जेरी लोजिंस्की (Joan and Jerry Lozinski), सैंड्रा एंड जिम पिटब्लैडो (Sandra and Jim Pitblado), सी.एम., ग्रेचन एंड डोनाल्ड रॉस (Gretchen and Donald Ross), ओ.सी., द लैरी एंड जूडी टेननबॉम फैमिली फाउंडेशन (The Larry & Judy Tanenbaum Family Foundation), द माइकल यंग फैमिली फाउंडेशन (The Michael Young Family Foundation), ए.एन.डी.पी.वी.ए. (ANDPVA), द अज़राइली फाउंडेशन (The Azrieli Foundation), ऐलिनोर गिल रैटक्लिफ (Elinor Gill Ratcliffe), सी.एम., ओ.एन.एल., एल.एल.डी.आदि

सरकारी पार्टनर कैनेडा काउंसिल फॉर द आर्ट्स (Canada Council for the Arts), ओनटैरियो आर्ट्स काउंसिल (Ontario Arts Council)

मीडिया पार्टनर सेंट जोसेफ कम्युनिकेशन्स (St. Joseph Communications), ब्रांडेड सिटीज (Branded Cities), एस्ट्रल (Astral), आउटफ्रंट कैनेडा (OUTFRONT Canada), पैटिसन (Pattison), द ग्लोब एंड मेल (The Globe and Mail), टोरोंटो स्टार (Toronto Star)

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया



Media Release

multiculturalmedia@brampton.ca

ल्यूमिनाटो फेस्टिवल टोरॉंटो

media@luminato.com